



## अनुभाग 9 - वैकल्पिक मतदाता जानकारी

आप अपना ईमेल और फ़ोन नंबर शामिल कर सकते हैं।

आप निम्नलिखित भाषाओं में चुनाव सामग्री प्राप्त करने के लिए अपनी भाषा वरीयता चुन सकते हैं:

- अंग्रेज़ी
- स्पेनिश
- चीनी
- हिंदी
- जापानी
- अन्य भाषा: \_\_\_\_\_
- खमेर
- कोरियन
- टैगालॉग
- थाई
- वियतनामी

यदि किसी बॉक्स पर निशान नहीं लगाया गया है, तो मतदाता सामग्री अंग्रेज़ी में प्रदान की जाएगी।

आप सुलभ प्रारूप में मतदान सामग्री का अनुरोध करने के लिए बॉक्स का चयन भी कर सकते हैं।

आप मतदान कर्मी बनने के लिए बॉक्स का चयन भी कर सकते हैं।

आप अपनी जातीयता/नस्ल भी शामिल कर सकते हैं।

## अनुभाग 10 - शपथ पत्र

अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए आपको लाल बॉक्स पर हस्ताक्षर करने होंगे और तारीख डालनी होगी।

जब आप हस्ताक्षर करते हैं, तो आप शपथ लेते हैं और पुष्टि करते हैं कि आप:

- 1) एक अमेरिकी नागरिक हैं और कैलिफ़ोर्निया के निवासी हैं और कम से कम 16 वर्ष के हैं।
- 2) वर्तमान में किसी गुंडागर्दी के लिए राज्य या संघीय जेल की सजा नहीं काट रहे हैं।
- 3) वर्तमान में किसी न्यायालय द्वारा मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाए गए हैं।
- 4) समझें कि कार्ड पर जानबूझकर गलत जानकारी देना अपराध है।
- 5) कैलिफ़ोर्निया राज्य के कानूनों के तहत झूठी गवाही के दंड के तहत घोषणा करें कि कार्ड पर दी गई जानकारी सत्य और सही है।
- 6) जब आप डाक से वोट करने वाला मतपत्र लौटाते हैं, तो वापसी लिफाफे पर आपके हस्ताक्षर इस फ़ॉर्म पर आपके हस्ताक्षर (या आपके मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड में अन्य हस्ताक्षर) से मेल खाने चाहिए।

## कार्ड का निचला हिस्सा - नीला बॉक्स

अगर किसी ने आपको अपना वोट रजिस्ट्रेशन कार्ड भरने या डिलीवर करने में मदद की है, तो नीचे दाईं ओर मौजूद नीला बॉक्स उस व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिसने आपकी मदद की है।

## जब काम पूरा हो जाए

- वोट रजिस्ट्रेशन कार्ड के निचले हिस्से को अपनी रसीद के रूप में फाड़ लें और इसे तब तक अपने पास रखें जब तक आपको अपने काउंटी चुनाव अधिकारी से नोटिस प्राप्त न हो जाए।
- अपने वोट रजिस्ट्रेशन कार्ड को मोड़ें और टेप से सील करें। कार्ड को स्टेपल न करें।

अगर संयुक्त राज्य में मेल किया जाता है, तो कोई डाक शुल्क नहीं देना होगा।

## महत्वपूर्ण जानकारी

अपना वोट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चेक करें:  
[voterstatus.sos.ca.gov](http://voterstatus.sos.ca.gov) पर जाएं।

## Safe at Home (घर पर सुरक्षित)

अगर अपना पता साझा करने से आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो आप गोपनीय रूप से वोट देने के लिए पंजीकरण करने के योग्य हो सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, **Safe at Home** कार्यक्रम से संपर्क करें।

## Safe at Home:

(877) 322-5227

ऑनलाइन:

[SafeAtHome.sos.ca.gov](http://SafeAtHome.sos.ca.gov)

चुनाव संबंधी जानकारी के लिए, कृपया देखें: [sos.ca.gov](http://sos.ca.gov)

या निम्न पर कॉल करें:

अंग्रेज़ी - (800) 345-VOTE (8683)

Español / स्पेनिश - (800) 232-VOTA (8682)

中文 / चीनी - (800) 339-2857

हिन्दी / हिन्दी - (888) 345-2692

日本語 / जापानी - (800) 339-2865

ខ្មែរ / खमेर - (888) 345-4917

한국어 / कोरियन - (866) 575-1558

Tagalog / टैगालॉग - (800) 339-2957

ภาษาไทย / थाई - (855) 345-3933

Việt ngữ / वियतनामी - (800) 339-8163

यदि आपको लगता है कि आप चुनाव धोखाधड़ी के शिकार हैं, तो आप चुनाव मतदाता शिकायत फ़ॉर्म का उपयोग करके उल्लंघन की रिपोर्ट

हमारे कार्यालय में कर सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप राज्य सचिव के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं:

अंग्रेज़ी: (916) 657-2166 या (800) 345-VOTE (8683) · स्पेनिश: (800) 232-VOTA (8682)